



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 318] नई दिल्ली, सोमवार, विसं० 30, 1974/पौष 9, 1896

No. 318] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1974/PAUSA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE

#### IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th December 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1974—March, 1975.*

No. 194-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1974—March 1975, issued under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74, dated the 2nd April, 1974 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II.	Reference	Amendments		
87		After the existing entry A. 116.9, the following may be inserted :—		
1	2	3	4	5
A. 116.10	Water pumping Plant (Complete)	25%	See Col. 5	Items permissible against different products exported as a part of Water Pumping Plant (Complete). Items appearing in the A. U. licence issued to the supporting manufacturer (s) since 1st April, 1972 may be allowed.

3. It has been decided that the item 'FRP Fishing Trawlers, boats (all sizes) with prime mover' will fall under S. No. A.147.

4. It has also been decided that the item 'Adhesives and adhesive gums' classified under S. No. B.4.2 on page xxviii of Section IV of the aforesaid Red Book may be deleted.

5. The Classification of export products contained in Section IV of the aforesaid Red Book may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

### वाणिज्य मंत्रालय

#### सार्वजनिक सूचना

#### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974-मार्च 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं० 194 आई०टी०सी० (पी०एन०)/174.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन उचित स्थानों पर नीचे निर्दिष्टानुसार किए जाएं :—

रेडबुक (वा० 2)

की पृष्ठ सं०

संदर्भ

संशोधन/संकलन

87 वर्तमान प्रविष्टि ए० 116.9 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्टि की जाए :—

1	2	3	4	5
ए० 116.10	वाटर पम्पिंग प्लान्ट (पूर्ण)	20 %	कालम 5 देखिए	वाटर पम्पिंग प्लान्ट (पूर्ण) के एक भाग के रूप में निर्यात किए गए विभिन्न उत्पादों के प्रति अनुमेय मर्दे । समर्थक विनिर्माण कर्ता (श्रौं) को एक अप्रैल, 1972 से जारी किए गए वास्तविक उपयोगिता लाइसेन्स में प्रदर्शित मर्दों की अनुमति दी जा सकती है ।

3. यह निश्चय किया गया है कि मद “प्राइम मूवर के साथ एक आर पी किशिंग ट्रावलर्स/वोट (सभी आकारों के)” क्रम संख्या ए० 147 के अन्तर्गत आएगी।

4. यह भी निश्चय किया गया है कि उक्त रेडबुक के खंड 4 के पृष्ठ 28 पर की क्रम संख्या बी० 4.2 के अन्तर्गत उल्लिखित मद “आसंजक एवं ग्रामसंजक गोद” को हटाया जाए।

5. उक्त रेडबुक के खंड 4 में सम्मिलित निर्यात उत्पादों के विशिष्टीकरण को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

बी० डी० कुमार,  
मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात।

